

## नावागढ़ चट्टी से भारी मात्रा में प्रिंट व नकली शराब बरामद

हिन्दुस्तान टीम, गिरडीह Newswrap  
Fri, 10 Dec 2021 03:41 AM



खोरीमहुआ ( प्रतिनिधि)। धनवार थाना क्षेत्र के नवागढ़ चट्टी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार रात्रि छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री सहित नकली शराब बरामद की गई है। इस मामले को लेकर गुरुवार को धनवार थाने में एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवागढ़ चट्टी के मनोज साव उर्फ मनोज नायक, नरेश साव व रामेश्वर साव के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने वाली प्रिंट, बोतल पर चिपकाने वाला स्टिकर, रैपर, कलर तथा अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बताया कि पुलिस अधीक्षक को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर धनवार पुलिस ने टीम गठन कर थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार के नेतृत्व में चट्टी के जलधारी साव के पुत्र मनोज साव, बुधन साव के पुत्र नरेश साव तथा सोमर साव के पुत्र रामेश्वर साव के घर छापेमारी की गई। मनोज के घर से ग्यारह पेटी में 750 एमएल के 132 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 35 लीटर करके 15 गेलन में भरा कच्चा प्रिंट, छह लीटर कलर लिक्विड, नरेश साव के घर पर 35 लीटर करके 22 गेलन में कच्चा प्रिंट जबकि रामेश्वर साव के घर से 19 पेटी में 750 एमएल के 228 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 35 लीटर करके 21 गेलन में कच्चा प्रिंट, करीब 15 सौ स्टिकर, 34 पेपर बैक प्राइज लेबल, एक हजार पीस कैप (ढक्कन) बरामद हुआ है। हालांकि इस अवैध कारोबार में संलिप्त सभी मौके से फरार हो गए। एसडीपीओ ने कहा कि टीम गठित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी लोग इस धंधे में शामिल हैं सभी लोगो पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस रात-दिन सक्रिय है। बताया कि अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अभियान में घोड़थम्बा ओपी प्रभारी ओम प्रकाश व एएसआई राहुल रंजन सिंह सहित सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी शामिल थे।

Source: <https://www.livehindustan.com/jharkhand/gridih/story-large-quantity-of-printed-and-spurious-liquor-recovered-from-nawagarh-chatti-5289789.html>